



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2007 /फाल्गुन 3, 1928

No. 182]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2007/PHALGUNA 3, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2007

का.आ. 264(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1237(अ), तारीख 2 सितम्बर, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 2 सितम्बर, 2005 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 120.000 कि.मी. से 224.000 कि.मी. (मदुरै-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चार लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 27 अक्टूबर, 2005 को "डेली मल्लर" और "दि हिन्दू" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और यतः इसाक्कीरुथु और 3 अन्य द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय मदुरै न्यायपीठ में दायर की गई याचिका संख्या एमपी 4722/2006 में याचिका संख्या 4461 और याचिका संख्या 4462 के अनुसरण में माननीय न्यायपीठ ने दिनांक 17 जून, 2006 को पारित किए गए अपने आदेश द्वारा वादी की संपत्ति से संबंधित सर्वेक्षण संख्या 1706/2ए, 1304/4ए, 1708/2ए और 1708/20 के संबंध में, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1237(अ), तारीख 2 सितम्बर, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 6 सितम्बर, 2005 में प्रकाशित की गई थी, पर अंतरिम रोक लगा दी थी;

और यतः मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय मदुरै बैंच ने तारीख 30 नवम्बर, 2006 के अपने आदेश द्वारा ऊपर उल्लिखित याचिकाओं पर लगाई गई अंतरिम रोक को हटा दिया है और याचिकाओं को खारिज कर दिया है;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी दिल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 120.000 कि. मी. से 224.000 कि. मी. (मदुरै - कन्याकुमारी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भुखामी /हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तिरुनेलवेली	राधापुरम्	वडक्कू वल्लीयूर	278/1बी	निजी	शुष्क	500	रामाचन्द्रन पुत्र मयांदी कोनार
				278/2ए	निजी	शुष्क	750	रामाचन्द्रन पुत्र मयांदी कोनार
				278/4	राज्य सरकार	पोरमबोके	300	तमिलनाडु सरकार
				279/3	निजी	शुष्क	50	1. नारायण पेरुमल नादार पुत्र सदाईयन नादर 2. नाटराजन् 3. जहीर हुसैन 4. जेसीनथा मेरी 5. परमाशिवन्
				279/2सी2ए	निजी	शुष्क	700	परमाशिवन् पुत्र रामया कोनार
				1706/1बी	निजी	शुष्क	950	1. एम. सी. डी. ए. राजन् 2. अरुणाचलम् 3. बाला राजेश्वरी 4. सुब्रामिनया थेवर 5. पोल राज 6. सुब्रामिनया थेवर
				1706/2ए	निजी	शुष्क	8700	ईस्साकीमुथु पुत्र मनम मेरी कोनार
				1707/7	निजी	शुष्क	132	वसन्ता मेरी पत्नी अन्ना राजन्

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1707/8	निजी	शुष्क	400	1. चिदम्बरा थेवर, पुत्र सुब्रामनिया थेवर 2. लक्ष्मण थेवर पुत्र थीरुनवुकरसु थेवर 3. शिवा सुब्रामणयम पुत्र चित्राई थेवर 4. चेलादुरई @ महागनपति, पुत्र चित्राई थेवर 5. कंथासामी, पुत्र चित्राई थेवर 6. घनुषकोडी रामालिंगा थेवर पुत्र रामासामी थेवर 7. अलागामल 8. मुथामल 9. सरोजा
				1707/9	निजी	शुष्क	700	1. चिदम्बरा थेवर, पुत्र सुब्रामनिया थेवर 2. लक्ष्मण थेवर पुत्र थीरुनवुकरसु थेवर 3. शिवा सुब्रामणयम पुत्र चित्राई थेवर 4. चेलादुरई @ महागनपति, पुत्र चित्राई थेवर 5. कंथासामी, पुत्र चित्राई थेवर 6. घनुषकोडी रामालिंगा थेवर पुत्र रामासामी थेवर 7. अलागामल 8. मुथामल 9. सरोजा
				1707/1सी2बी	निजी	शुष्क	127	महादेवन पुत्र मयोनदी
				1707/1डी1ए	निजी	शुष्क	6700	लक्ष्मण थेवर पुत्र थीरुनवुकरसु थेवर
				1707/1डी2ए	निजी	शुष्क	168	लुस्थु जेवियर पुत्र थोमस
				1707/10	राज्य सरकार	पोरम्बोके	600	तमिलनाडु सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1707/3सी2	निजी	शुष्क	290	1. चिदम्बरा थेवर, पुत्र सुब्रामिन्या थेवर 2. लक्ष्मण थेवर पुत्र थीरुनवुकरसु थेवर 3. शिवा सुब्रामणयम पुत्र चित्राई थेवर 4. चेलादुरई @ महागनपति, पुत्र चित्राई थेवर 5. कंथासामी, पुत्र चित्राई थेवर 6. घनुषकोडी रामालिंगा थेवर पुत्र रामासामी थेवर 7. अलागामल 8. मुथामल 9. सरोजा
				1707/3डी1	निजी	शुष्क	2000	लक्ष्मण थेवर पुत्र थीरुनवुकरसु थेवर
				1708/1ए2	निजी	शुष्क	290	1. एम. सी. डी. ए. राजन् 2. अरुणाचलम् 3. बाला राजेश्वरी 4. सुब्रामिन्या थेवर 5. पोल राज 6. सुब्रामिन्या थेवर
				1708/18	निजी	मनाई	4117	1. एम. सी. डी. ए. राजन् 2. अरुणाचलम् 3. बाला राजेश्वरी 4. सुब्रामिन्या थेवर 5. रासईया पुत्र कोलुवाई नादर 6. एम. वल्ली पत्नी मदासामी 7. पोल राज 8. रुकमणि 9. आनी उथिरा 10. शिवालिंगम 11. चैलापांदी 12. रवि 13. तमिलनाडु सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1708/19	निजी	मनाई	165	1. माइकल रयाप्पन पुत्र अरुलप्पा नादर 2. बुमीथना इयाक्कम
				1708/2ए1	निजी	मनाई	545	1. नम्बी अरासन पुत्र ईस्साकीमुथु 2. मनमरन पुत्र ईस्साकीमुथु 3. सुब्बाईया बारती पुत्र ईस्साकीमुथु 4. डेविड 5. ऐलिजिबेथ 6. मारटिन पोनवलार सेल्वान 7. शानमुगम पुत्र नारायण कोनार 8. पप्पु अम्मल पुत्री पिच्चुमणि कोनार
				1708/20	निजी	मनाई	7272	1. नम्बी अरासन पुत्र ईस्साकीमुथु 2. मनमरन पुत्र ईस्साकीमुथु 3. सुब्बाईया बारती पुत्र ईस्साकीमुथु 4. डेविड 5. ऐलिजिबेथ 6. मारटिन पोनवलार सेल्वान 7. शानमुगम पुत्र नारायण कोनार 8. पप्पु अम्मल पुत्री पिच्चुमणि कोनार 9. ईस्साकीमुथु 10. राजेश्वरी 11. लक्ष्मणन 12. थिल्लार्इराज 13. अंडरुस कनगाराज 14. उमा पार्वती
				1708/3	निजी	मनाई	350	नरनथेरा बाबू पुत्र संकरा नारायणन
				1708/8	निजी	मनाई	100	रामासामी पुत्र कला पेरुमल नादर
				1708/11	निजी	शुष्क	250	जयासेलवन पुत्र पुनिया नादर
				1708/12	निजी	शुष्क	250	संघुथला कलावानी पत्नी इमानुवेल
				1708/14ए	निजी	शुष्क	325	थामस पुत्र वेथा मणिकम
				1708/15ए	निजी	शुष्क	114	थिलाराज पुत्र नाम्बीराज

582 G707-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1709/3	राज्य सरकार	पोरमबोके	4300	तमिलनाडु सरकार
				1709/5	राज्य सरकार	पोरमबोके	350	तमिलनाडु सरकार
				1725/51	निजी	शुष्क	180	1. वेलिटन पुत्र थामस 2. जोसफ जोए पत्नी स्थीनाराज 3. कुटालिगम @ राजा 4. कादर मोहिदिन पुत्र शेख उदुमन 5. राजालक्ष्मी पत्नी अरुमुगासामी 6. जोसफ जोए पत्नी ग्रहोरी 7. अब्दुल फारुख पुत्र मोहम्मद कनी 8. सरवनन पुत्र राजशेखरन नादर 9. देवदास पुत्र परनज्योति 10. चेलामल पत्नी अरुमुगम 11. सांथा चेलादुरई 12. मुथुलक्ष्मी 13. रुबी कमला पत्नी राजागोपालदास 14. रविकुमार पुत्र गननाय नादर 15. गुगा बालन 16. अरुणा 17. शानमुगासुंदरम 18. विलसन 19. मुरुगन 20. इसाकईयपन
				1725/52	निजी	शुष्क	260	1. वेलिटन पुत्र थामस 2. जोसफ जोए पत्नी स्थीनाराज 3. कुटालिगम @ राजा 4. कादर मोहिदिन पुत्र शेख उदुमन 5. राजालक्ष्मी पत्नी अरुमुगासामी 6. जोसफ जोए पत्नी ग्रहोरी 7. अब्दुल फारुख पुत्र मोहम्मद कनी 8. सरवनन पुत्र राजशेखरन नादर 9. देवदास पुत्र परनज्योति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10. चेलामल पत्नी अरुमुगम
								11. सांथा चेलादुरई
								12. मुथुलक्ष्मी
								13. रुबी कमला पत्नी राजागोपालदास
								14. रविकुमार पुत्र गननाय नादर
								15. गुगा बालन
								16. अरुणा
								17. शानमुगासुंदरम
								18. विलसन
								19. मुरुगन
								20. इसाकईयपन
				1725/53	निजी	शुष्क	65	1. वेलिटन पुत्र थामस
								2. जोसफ जोए पत्नी स्थीनाराज
								3. कुटालिगम @ राजा
								4. कादर मोहिदिन पुत्र शेख उदुमन
								5. राजालक्ष्मी पत्नी अरुमुगासामी
								6. जोसफ जोए पत्नी ग्रहोरी
								7. अब्दुल फारुख पुत्र मोहम्मद कनी
								8. सरवनन पुत्र राजशेखरन नादर
								9. देवदास पुत्र परनज्योति
								10. चेलामल पत्नी अरुमुगम
								11. सांथा चेलादुरई
								12. मुथुलक्ष्मी
								13. रुबी कमला पत्नी
								14. रविकुमार पुत्र गननाय नादर
								15. गुगा बालन
								16. अरुणा
								17. शानमुगासुंदरम
								18. विलसन
								19. मुरुगन
								20. इसाकईयपन
				1725/2ए1	निजी	शुष्क	16950	मारया माइकल अमल पत्नी येसुवदियन

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								33. अईप्पन
								34. आर. राजेश
								35. डारविन
								36. थांगादुरई
								37. अब्राहिम राज कुमार
								38. एस. जेबाकुमार
								39. राधाकृष्णन
								40. जयापाल
								41. तमिलनाडु सरकार
								42. मुथुकुमार पुत्र सुन्दरम असारी
								43. मुथुलक्ष्मी पत्नी मुथुकुमार
								44. राजन् पुत्र सुब्रामण्य नादर
								45. जेसटनी सिलवाई पुत्र नेहसीस
								46. पेपईल पत्नी अदाईकलाम
				1725/48	निजी	शुष्क	60	1. संगुथला अमाल
								2. कस्तुरी जयारुबी पत्नी वियाजकुमार गुनासीलन
								3. पनीर सेलवम पुत्र चेलिया
								4. जोस बाई पुत्र प्रेम कुमार
								5. माईकल पुत्र मनोहरन
								6. मरागथा राज पुत्र नला नम्बी
								7. गुनासलीन जयाकुमार पुत्र जयामनि
								8. श्रीरविया राज पुत्र सेम्युल नादर
								9. हेपजी बाई राजम पत्नी वेथाकन
								10. सांथी पुत्र इसाकईयपन
								11. जेसुदास पुत्र सुंदरम
								12. शिवाजी पुत्र पेरुमल
								13. मुथु पुत्र सामीनाथन्
								14. जरोवन पुत्र जोसफ पोल
								15. ग्रेस रोजरी पत्नी अरोकिया

582 GI/07-3





1	2	3	4	5	6	7	8	9
								34. आर. राजेश 35. डारविन 36. थांगादुरई 37. अब्राहिम राज कुमार 38. एस. जेबाकुमार 39. राधाकृष्णन 40. जयापाल 41. तमिलनाडु सरकार 42. मुथुकुमार पुत्र सुन्दम असासी 43. मुथुलक्ष्मी पत्नी मुथुकुमार 44. राजन् पुत्र सुब्रामणिय नादर 45. जेसटनी सिलवाई पुत्र नेहसीस 46. पेपईल पत्नी अदाईकलाम 46. पिपियल पत्नी अघाईकालम
				1725/50	निजी	शुष्क	105	1. संगुथला अमाल 2. कस्तुरी जयारुबी पत्नी वियाजकुमार गुनासीलन 3. पनीर सेलवम पुत्र चेलिया 4. जोस बाई पुत्र प्रेम कुमार 5. माईकल पुत्र मनोहरन 6. मरागथा राज पुत्र नला नम्बी 7. गुनासलीन जयाकुमार पुत्र जयामनि 8. थीरविया राज पुत्र सेम्युल नादर 9. हेपजी बाई राजम पत्नी वेथाकन 10. सांथी पुत्र इसाकईयपन 11. जेसुदास पुत्र सुंदरम 12. शिवाजी पुत्र पेरुमल 13. मुथु पुत्र सामीनाथन् 14. जरोवन पुत्र जोसफ पोल 15. ग्रेस रोजरी पत्नी अरोकिया 16. दयासीसन पुत्र पकियानाथन 17. अनीता पत्नी जोन रवि 18. विनसैट पुत्र सोसाई मनिकाम 19. लता पत्नी विनसट 20. शिपा पुत्री देवराज

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								21. जबाराज पुत्र पुनमबलम नादर
								22. अयाप्पन पुत्र मुथुसामी
								23. ए. पनीरसेलवम
								24. सोलोमन जेबा
								25. दुराईपणियन्
								26. कामाराज
								27. दुराई अरासन
								28. मलिका राजेन्द्रन
								29. मनी
								30. अबेल
								31. सेल्वी
								32. पुमलाई
								33. अईप्पन
								34. आर. राजेश
								35. डारविन
								36. थांगादुरई
								37. अब्राहिम राज कुमार
								38. एस. जेबाकुमार
								39. राधाकृष्णन
								40. जयापाल
								41. तमिलनाडु सरकार
								42. मुथुकुमार पुत्र सुन्द्रम असासी
								43. मुथुलक्ष्मी पत्नी मुथुकुमार
								44. राजन् पुत्र सुब्रामणिय नादर
								45. जेसटनी सिलवाई पुत्र नेहसीस
								46. पेपईल पत्नी अदाईकलाम

582 GI/07-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1725/2बी2ए	निजी	शुष्क	85	1. वसुकी पुत्री रामासामी कोनार 2. मारिया गननया पुत्र धनुष्कोडी नादर 3. आर.अमुथा
				1725/15ए	निजी	शुष्क	500	बालासुब्रामनियन पुत्र मुथिया थेवर
				1725/29बी	निजी	शुष्क	90	राजामल पत्नी सुन्दरराज
				1725/32ए	निजी	शुष्क	35	ईसकाईपन @ मनि पुत्र बगवती असासी
				1725/33ए	निजी	शुष्क	90	1. मनोहर पुत्र थंगाई नादर 2. गनाना सेलवम पत्नी मनोहर
				1725/40ए	निजी	शुष्क	15	सांथी पत्नी इसाकईयपन
				1725/44ए	निजी	शुष्क	55	अनीता पत्नी जोन रवि
				1725/45बी	निजी	शुष्क	95	मेतिलदा पत्नी चेलादुरई
				1730/1ए2	निजी	शुष्क	18050	1. निर्मला कस्तुरीबाई 2. कंथईया थेवर पुत्र सुदालीमुथु थेवर 3. नटराजन 4. चेलादुरईपांडियन नटराजन पुत्र कंथईया थेवर
				1730/1बी1	निजी	शुष्क	850	नटराजन पुत्र कंथईया थेवर
				1736/1ए	निजी	शुष्क	4250	जेसु रेथनाबाई
				1737/1बी	निजी	शुष्क	7600	मारिया माईकल अमाल
				1737/2बी	निजी	शुष्क	3400	जेसुवदायन
				1740/3ए2	निजी	शुष्क	100	1. रामसिंह पुत्र थंगाई नादर 2. मानिकदास पुत्र अरोकियासामी 3. अमालराज पुत्र सवारीमुथु नादर 4. कृष्णावेनी पत्नी सुरेश कुमार
				1741/1बी	निजी	शुष्क	100	1. गलेबाई पत्नी रामसिंह 2. विनोद 3. विमल 4. विजय गार्डियन गलेबाई
				1741/2बी	निजी	शुष्क	6000	1. रामासुबु कोन 2. चेलप्पा
				1741/3ए2	निजी	शुष्क	200	सुंदरराजन पुत्र मुथुसामी रेडियार
				1741/3बी	निजी	शुष्क	200	वैकटा सुबारयालू पुत्र रामासामी रेडियार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1741/3सी	निजी	शुष्क	200	वेंकटा कृष्णन पुत्र वस्थाशजन
				1741/3डी	निजी	शुष्क	400	1. अनुराधा पत्नी बगवती
								2. जानकी पत्नी बालन
				1741/3ई2	निजी	शुष्क	2400	1. रामसिंह पुत्र थंगई नादर
								2. मानिकदास पुत्र अरोकियासामी
								3. अमालराज पुत्र सवारीमुथु नादर
								4. कृष्णाबेनी पत्नी सुरेश कुमार
								5. थिरावियम
								6. इदिश
								7. राजन
				1741/3एफ1	निजी	शुष्क	600	सुंदरराजन पुत्र मुथुसामी रेडियार
				1741/3जी	निजी	शुष्क	600	सुकुमारन पुत्र थीरुवेनगदम
				1741/4ए	निजी	शुष्क	350	सांथी @ सन्ताकुमारी पत्नी सुकुमारन
				1742/1ए	निजी	शुष्क	250	1. जयारमण
								2. जयाराज
								3. बेबी डेनियल
								4. अनाबाईया
								5. थेंकाराई महाराजन
								6. रामसिंह
								7. सेल्वाबाई
								8. मुथई
				1742/2ए	निजी	शुष्क	1600	1. रामसुबु कोन
								2. चेलप्पा
				1743/2	निजी	शुष्क	18100	सबापति पुत्र अरुमुगम चेथियार
				1744/3बी	निजी	शुष्क	100	सेल्वारराज पुत्र रामासुन्दरम नादर
				1744/4बी	निजी	शुष्क	100	1. वी. करुथाकन नादर
								2. आर. हरिगोपालन
								3. आर. सेलवारराज
				1758/2	राज्य सरकार	पोरमबोके	2650	तमिलनाडु सरकार
				1774/2बी	निजी	शुष्क	1850	मोईदिन पुत्र मुस्तफा
				1774/6ए1	निजी	शुष्क	100	1. अन्नापोरसिया पत्नी अनन्ता राजा
								2. तमिल नाडु मरकनटाईल बैंक लि.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1774/6बी1	निजी	शुष्क	1400	1.अन्नापोरसिया पत्नी अनन्ता राजा 2.तमिल नाडु मरकनटाईल बैंक लि.
				1774/7ए	निजी	शुष्क	2900	1.मोईदिन पुत्र मुस्तफा 2.अनन्ता राजा पुत्र संधानमारियन नादर 3.तमिल नाडु मरकनटाईल बैंक लि.
				1777/1ए2	निजी	शुष्क	7400	डोरिस विक्टर पत्नी ए.डी.जे. विक्टर
				1777/2ए	निजी	शुष्क	6200	1.मगामुथा पत्नी मोहम्मद कानी 2.आसन मीरन पुत्र मोहम्मद कानी 3.मोहम्मद बर्थावस मोहम्मद कानी
				1778/2बी	निजी	शुष्क	12100	डोरिस विक्टर पत्नी ए.डी.जे. विक्टर
				1780/1बी14बी	निजी	शुष्क	50	जयन्ती पुत्री कुमारसामी
				1780/1बी15बी	निजी	शुष्क	150	नरेश बाबू पुत्र पेरुमल पिल्लै
				1780/1बी16बी	निजी	शुष्क	245	चिदम्बरा कुमार @ एम. सी. कुमार पुत्र मरियप्पा पिल्लै
				1780/1बी17	निजी	शुष्क	300	बालामल पत्नी कनगा सभापति पिल्लै
				1780/4	निजी	शुष्क	10700	1. मगामुथा पत्नी मोहम्मद कानी 2. आसन मीरन पुत्र मोहम्मद कानी 3. मोहम्मद बर्थावस मोहम्मद कानी
				1780/1बी21	निजी	शुष्क	300	थनगरानी हेपजीबाई पत्नी सुन्दरराजन
				1780/2बी	निजी	शुष्क	1600	अरुलमिगु नारायनसामी कोयल एक्जिक्युटिव आफिसर और थक्कर
				1780/3बी	निजी	शुष्क	35	थीस्थरपन पुत्र रामासामी मुदिलियार
				1781/1बी	निजी	शुष्क	1100	1. मदेश कुमार पुत्र थंगापन 2. अमुथा पत्नी अनबालगन
				1786/2	निजी	शुष्क	15850	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ • मेडाई थलावाई कटालाई एक्ज्युटिव आफिसर
				1788/2	निजी	शुष्क	18100	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ मेडाई थलावाई कटालाई एक्ज्युटिव आफिसर



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1789/1ए	निजी	शुष्क	1350	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ मेडाई थलावाई कटालाई एक्जुटिव आफिसर
				1790/1बी	निजी	शुष्क	14000	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ मेडाई थलावाई कटालाई एक्जुटिव आफिसर
				1790/4	राज्य सरकार	पोरमबोके	250	तमिल नाडू सरकार
				1790/3बी	निजी	शुष्क	10000	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ मेडाई थलावाई कटालाई एक्जुटिव आफिसर
				1791/2	राज्य सरकार	पोरमबोके	1400	तमिलनाडू सरकार
				1792/2	राज्य सरकार	पोरमबोके	12250	तमिलनाडू सरकार
				1794/1	निजी	शुष्क	156	वैलूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1794/2ए	निजी	शुष्क	125	वैलूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1794/3	निजी	शुष्क	284	वैलूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1794/4ए	निजी	शुष्क	950	वैलूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1794/5ए	निजी	शुष्क	481	वैलूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1794/6ए	निजी	शुष्क	79	वैलूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1794/7ए	निजी	शुष्क	45	वैलूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1794/20ए	निजी	शुष्क	200	वैलूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1794/21	निजी	शुष्क	250	वैलूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1794/22ए	निजी	शुष्क	140	वैलूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1794/36ए	निजी	शुष्क	86	वैलूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1794/41ए	निजी	शुष्क	600	वैलूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1797/1	निजी	शुष्क	4500	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ मेडाई थलावाई कटालाई एक्कुटिव आफिसर
				1798/2ए	निजी	शुष्क	1900	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ मेडाई थलावाई कटालाई एक्कुटिव आफिसर
				1800/2	निजी	नम	3100	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ मेडाई थलावाई कटालाई एक्कुटिव आफिसर
				1802/2	निजी	नम	650	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ मेडाई थलावाई कटालाई एक्कुटिव आफिसर
				1803/2	निजी	नम	550	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ मेडाई थलावाई कटालाई एक्कुटिव आफिसर
				1805/2	निजी	नम	650	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ मेडाई थलावाई कटालाई एक्कुटिव आफिसर
				1806/2	निजी	शुष्क	350	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ मेडाई थलावाई कटालाई एक्कुटिव आफिसर
				1831/3बी	निजी	शुष्क	3300	वडाकु वैलूर सुब्रामनिया स्वामी कोयल उचन्ती कटालाई स्टाफ मेडाई थलावाई कटालाई एक्कुटिव आफिसर
				2317/24	निजी	मनाई	18	डी. वेथायनाथन
				2317/25	निजी	मनाई	74	आर. संकरा वदीवु
				2317/13	निजी	मनाई	129	आर. संकरा वदीवु
				2317/27	राज्य सरकार	पोरमबोके	170	तमिलनाडु सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2317/26	निजी	मनाई	52	पी. अरुमुगम
				2317/21	निजी	मनाई	75	पुष्पम
				2317/28	राज्य सरकार	पोरमबोके	85	तमिलनाडु सरकार
				2318/16	निजी	मनाई	60	सरोजा पत्नी नालाथम्बी
				2318/5	निजी	मनाई	70	वसन्ता पत्नी नटराजन
				2318/6	निजी	मनाई	100	मुथुमल
				2318/17	निजी	मनाई	60	दीनामनी पत्नी पुनिया
				2318/21	राज्य सरकार	पोरमबोके	89	तमिलनाडु सरकार
				2318/11	निजी	मनाई	122	ई. सेलवामनि
				2318/18	निजी	मनाई	117	ई. लक्ष्मी
				2318/19	निजी	मनाई	62	पी. मुकिया
				2318/20	निजी	मनाई	20	पुनगाथाई
				2318/15	निजी	मनाई	118	ए. कमालम
				2319/18	राज्य सरकार	पोरमबोके	70	तमिलनाडु सरकार
				2319/17	निजी	मनाई	15	पेरिनबाम
				2321/24	राज्य सरकार	पोरमबोके	92	तमिलनाडु सरकार
				2321/4	निजी	मनाई	175	एम. थंगामल
				2321/5	राज्य सरकार	पोरमबोके	50	तमिल नाडु सरकार
				2321/6	निजी	मनाई	103	राजामल पत्नी राजाई
				2321/7	निजी	मनाई	94	ई चैलप्पा
				2321/25	राज्य सरकार	पोरमबोके	355	तमिलनाडु सरकार
				2321/22	निजी	मनाई	55	ई. सेलवामनि
				2321/23	निजी	मनाई	103	एम. नालाथम्बी
				1272/1ए	निजी	नम	800	लक्ष्मी पत्नी कांथन
				1272/1बी	निजी	नम	850	1. इसकियामल पत्नी मुरुगन 2. मुरुगन पुत्र मलाईअन्दी कोनार
				1272/1सी	निजी	नम	850	लक्ष्मी पत्नी कांथन
				1272/2ए	निजी	नम	750	लक्ष्मी पत्नी कांथन
				1273/2	निजी	नम	500	इसकियामल पत्नी गनपति कोनार
				1274/2	निजी	नम	800	जयालक्ष्मी पत्नी नम्बी राजन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1281/2बी	निजी	नम	450	1. थंगापांडी पुत्र मदामुथु 2. नटराजन पुत्र मदामुथु 3. एस. एम. शुनमुगा वदीवु पुत्री मदामुथु
				1281/3	निजी	नम	750	सेल्वाराज पुत्र पेरुमल
				1281/4	निजी	नम	750	1. सेल्वाराज पुत्र पेरुमल 2. माथाल अमाल पत्नी सेल्वाराज
				1282/1ए1	निजी	नम	200	1. पप्पु पुत्री शुनमुगम 2. पंचावरनम पुत्री शुनमुगम 3. सेलवस्थीनम पुत्र शुनमुगम 4. कपिवेति पुत्र शुनमुगम 5. नारायणन
				1282/1बी1	निजी	नम	200	वेल्लुथम पुत्र सामी
				1282/1सी1	निजी	नम	200	1. ईसकीमुथु पुत्र सामी 2. एम. माईकल
				1282/1डी1	निजी	नम	250	1. चिदम्बरम पुत्र सामी 2. हरिदास
				1283/1	निजी	नम	700	चेलिया पुत्र शानमुगम
				1284/1ए	निजी	नम	1650	1. पेरुमल पुत्र करुपिया 2. रामासामी पुत्र करुपिया 3. ईयाकुट्टी पुत्र नायनर 4. माईकल पुत्र एंडुज 5. चंद्रामति पुत्री कांथन 6. पनिकम पुत्री कांथन
				1287/1ए	निजी	नम	500	पुलुदयान पुत्र मदासामी
				1287/1बी	निजी	नम	500	चिदम्बरम पुत्र नायनर
				1287/2ए1	निजी	नम	100	रसिया पुत्र पेरीयासामी नादर
				1287/2बी1	निजी	नम	50	कृष्णा कोनार पुत्र वनिया कोनार
				1288/1ए	निजी	नम	450	मनिकम पिल्लै पुत्र महाराजा पिल्लै
				1288/2	निजी	नम	50	1. मनिकम पिल्लै पुत्र महाराजा पिल्लै 2. नाम्बी पुत्र पेरुमल 3. पुरुमल पुत्र सुबईया 4. ईसाकीमुथु पुत्र सामी 5. नाम्बी नारायणन पुत्र पेरुमल कोनार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1288/3ए	निजी	नम	400	नाम्बी नारायनन पुत्र पेरुमल कोनार
				1289/1ए	निजी	नम	400	1. मनिकम पिल्लै पुत्र महाराजा पिल्लै 2. स्थानाराज
				1289/2ए	निजी	नम	300	1. मनिकम पिल्लै पुत्र महाराजा पिल्लै
				1291/1ए	निजी	नम	200	पुलुदयान पुत्र मदासामी
				1291/2ए	निजी	नम	100	1. चिदम्बरम पुत्र नायनर 2. ग्राहोरी स्थानाराज मनि
				1304/1ए1	निजी	नम	60	मनि पुत्र पेरुमल
				1304/1एफ1	निजी	नम	10	1. मनि पुत्र पेरुमल 2. नेगोमिया पुत्र पेरुमल 3. मुथुराज पुत्र देवराम 4. पप्पा पत्नी मुथुराज 5. इंद्रन पुत्र नंथन 6. शक्ति पत्नी इंद्रन 7. अन्नादुरई पुत्र चिन्ना करुपिया
				1304/2ए1	निजी	नम	65	माईकल जार्ज पुत्र याकुब
				1304/2डी1	निजी	नम	5	1. माईकल जार्ज पुत्र याकुब 2. पालपांडी पुत्र याकुब 3. एंथोनी क्रुज फरनेंडो पुत्र एंथोनी इरुधायम फरनेंडो
				1304/3ए1	निजी	नम	5	1. जेसु माईकल पुत्र एंथोनीमुथु 2. अरुल वीरासीमन पुत्र एंथोनीमुथु 3. मोसस पुत्र एंथोनीमुथु 4. अन्ना जया पत्नी मोसस
				1304/3बी1	निजी	नम	70	जेसु माईकल पुत्र एंथोनीमुथु
				1304/4ए	निजी	नम	355	ईस्साकीमुथु पुत्र मनम मेरी कोनार
				1305/1ए	निजी	नम	1650	1. सुबईया कोनार पुत्र सुदालाईमुथु कोनार 2. ग्राहोरी स्थानाराज
				1312/1ए	निजी	शुष्क	600	वल्लीयूर पंचायत युनियन
				1312/2ए	निजी	शुष्क	50	वल्लीयूर पंचायत युनियन

582 6407-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1313/1बी	निजी	नम	4800	थंगालक्ष्मी पत्नी थंगादुरई
				1313/2ए1	निजी	नम	400	1. सुसई स्थनम पुत्र गनाना दुरईसामी नादर
								2. सेल्वाराज पुत्र गनाना दुरईसामी नादर
								3. एलैक्जैंडर पुत्र गनाना दुरईसामी नादर
				1313/2बी1	निजी	नम	450	नाम्बी कोनार पुत्र मोसाना कोनार
				1314/4	राज्य सरकार	पोरमबोके	30	तमिलनाडु सरकार
				1314/2ए1	निजी	नम	50	मुथकुमार पुत्र कृष्णन
				1331/5	राज्य सरकार	पोरमबोके	50	तमिलनाडु सरकार
				1331/2ए	निजी	शुष्क	150	1. एलागमानी नादर पुत्र अथिमुथु नादर
								2. अनन्था मोहन पुत्र एलागमानी नादर
								3. अथिकेशवन पुत्र एलंगामनि नादर
								4. पेरुमल
				1337/1ए	निजी	शुष्क	1750	1. मुरुगन पुत्र नाम्बी कोनार
								2. रामन
				1337/1बी1ए	निजी	शुष्क	1350	1. रामन पुत्र पेरुमल नेकर
								2. गनपति पुत्र पेरुमल नेकर
				1337/1बी2ए	निजी	शुष्क	6700	मुरुगन पुत्र नाम्बी कोनार
				1337/2	निजी	शुष्क	800	मुरुगन पुत्र नाम्बी कोनार
				1337/3	निजी	शुष्क	850	मुरुगन पुत्र नाम्बी कोनार
				1337/4	निजी	शुष्क	1400	मुरुगन पुत्र नाम्बी कोनार
				1337/5	निजी	शुष्क	1050	मुरुगन पुत्र नाम्बी कोनार
				1337/6	निजी	शुष्क	1600	मुरुगन पुत्र नाम्बी कोनार
				1338/2	राज्य सरकार	पोरमबोके	800	तमिलनाडु सरकार
				1340/1सी2	निजी	नम	250	1. कृष्णा कोनार पुत्र पेरुमल कोनार
								2. रामन पुत्र पेरुमल नेकर
								3. गनपति पुत्र पेरुमल नेकर
				1340/2ए	निजी	नम	3250	वल्लीयूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1341/3	राज्य सरकार	पोरमबोके	350	तमिलनाडु सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1341/2बी	निजी	शुष्क	5950	वल्लीयूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1342/3	राज्य सरकार	पोरमबोके	300	तमिलनाडु सरकार
				1342/2बी	निजी	शुष्क	5900	वल्लीयूर श्री अरुलमिगु सुब्रामनिया सामी कोविल अर्थासामी कटालाई
				1343/4	निजी	नम	2900	मसानम पुत्र नलाकानु कोनार
				1343/1ए1बी	निजी	नम	1250	सुंदरा कोनार पुत्र उथीरामुथु कोनार
				1343/1बी1	निजी	नम	450	1. कृष्ण कोनार पुत्र थुसीमुथु कोनार 2. मसानम पुत्र नलाकानु कोनार
				1343/1बी2	निजी	नम	350	सुंदरा कोनार पुत्र उथीरामुथु कोनार
				1343/1बी3ए	निजी	नम	100	1. ईलांगमनि नादर पुत्र अथीमुथु नादर 2. अनन्था मोहन पुत्र एलागमानी नादर 3. अथी कैसवन पुत्र एलागमानी नादर
				1343/2ए	निजी	नम	1100	1. संकरन पुत्र वनिया कोनार 2. पाल नादर
				1346/1बी	निजी	नम	500	पेरुमल कोनार पुत्र सुदालीमुथु कोन
				1346/2	निजी	नम	1200	1. संकरामल पत्नी कृष्णा कोनार 2. प्रासाथ पुत्र कृष्णन
				1347/1ए	निजी	नम	1450	एन. इंदिरा पत्नी बालकृष्णन
				1347/2ए	निजी	नम	1800	1. संकरामल पत्नी कृष्णा कोनार 2. प्रासाथ पुत्र कृष्णन
				1348/1बी	निजी	शुष्क	1250	1. संकरामल पत्नी कृष्णा कोनार 2. प्रासाथ पुत्र कृष्णन
				1348/2	निजी	शुष्क	100	सुदालीमुथु कोनार पुत्र ईनामुथु कोनार
				1348/3	निजी	शुष्क	700	एन. इंदिरा पत्नी बालकृष्णन
				1349/1बी	निजी	शुष्क	2200	1. सुसई रथनम पुत्र गनाना दुरईसामी नादर 2. सेल्वाराज पुत्र गनाना दुरईसामी नादर 3. एलेक्जेंडर पुत्र गनाना दुरईसामी नादर
				1349/2बी	निजी	शुष्क	2300	1. माना नादर पुत्र पंदारा नादर 2. नारायणन नादर पुत्र पंदारा नादर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1349/3बी	निजी	शुष्क	2500	सुदालीमुथु कोनार पुत्र ईनामुथु कोनार
				1349/5	राज्य	पोरमबोके	350	तमिल नाडु सरकार
				1350/2	निजी	शुष्क	4200	एम. रामाचंद्रन पुत्र मलाईदी कोनार
				1357/2ए2	निजी	नम	2400	1. ईसाकीयमल पत्नी भगवती कोनार 2. थंगादुरई पुत्र नारायना नादर
				1357/2सी2	निजी	नम	2350	1. ईसाकीयमल पत्नी भगवती कोनार 2. थंगादुरई पुत्र नारायना नादर
				1358/3बी2	निजी	नम	1100	1. उसिकातन पुत्र पेशीसामी 2. बालाकृष्णा कोनार पुत्र वेलु कोनार 3. रामसुबु कोनार पुत्र वेलु कोनार 4. जयासिली पत्नी माईकल 5. ईसकालिन फातिमा
				1358/3सी	निजी	नम	3650	1. जयासिली पत्नी माईकल 2. रामसुबु पुत्र अरुमुगा वेलर 3. अरुनाचलम पुत्र अरुमुगा वेलर 4. चार्ल्स पुत्र अरुमुगा वेलर 5. ब्रीटो पुत्र माईकल 5. ईसकालिन फातिमा पत्नी मारिया अगास्तिन
				1359/2ए2	निजी	नम	600	कृष्णा कोनार पुत्र वलीवल कोनार
				1359/2बी	निजी	नम	1500	कृष्णा कोनार पुत्र वलीवल कोनार
				1359/4ए2	निजी	नम	1450	कृष्णा कोनार पुत्र वलीवल कोनार
				1359/4बी2	निजी	नम	650	1. अरुमुगा वेलर पुत्र सुबु वेलर 2. पो न लथा
				1359/4सी	निजी	नम	900	सुबामल पत्नी करुपा कोनार
				1382/1बी	निजी	नम	700	अरुमुगा कोनार पुत्र ईश्वरमुर्ति कोनार
				1382/2	निजी	नम	1250	अरुमुगा कोनार पुत्र ईश्वरमुर्ति कोनार
				1383/2बी	निजी	नम	1400	ईश्वरी अमाल पत्नी अरुमुगम
				1384/1बी	निजी	नम	2000	चंद्रा अमाल पत्नी बालाकृष्णन
				1399/2	राज्य	पोरमबोके	650	तमिल नाडु सरकार
				1422/1बी	निजी	नम	1050	पेची अमाल माता वेलीमल
				1422/2बी	निजी	नम	1200	कानमुदिया कोनार पुत्र ईसाकीमुथु कोनार



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1422/3बी	निजी	नम	850	पोनुसामी पुत्र नारायण नादर
				1423/1	निजी	नम	1400	कोम्बा कोनार पुत्र सुबया कोनार
				1423/2	निजी	नम	600	1 किरस्ती रेडडी पत्नी थामस बराती गोस्था 2. रामासुबु कोनार पुत्र इसाकीमुथु कोनार
				1424/1	निजी	नम	1450	ईसाकापन पुत्र पेरुमल
				1424/2	निजी	नम	1200	ईसाकापन पुत्र पेरुमल
				1425/1ए1	निजी	नम	600	मुथुमल पत्नी (स्त्रीगय) आइराथन
				1425/1बी1	निजी	नम	65	1. अर्चना कोनार पुत्र मुकिया कोनार 2. मसानम पुत्र नलाकानु कोनार 3. सुन्दरम पुत्र नलाकानु कोनार 4. नारायना कोनार पुत्र मुथु कोनार 5. पतामुथु पुत्र सुबईया कोनार 6. पेरुमल कोनार पुत्र सामी कोनार 7. रमन 8. सुबईया 9. थंकराई महाराजन 10. नटराजन 11. चेलामल
				1425/2ए	निजी	नम	500	1. अर्चना कोनार पुत्र मुकिया कोनार 2. मसानम पुत्र नलाकानु कोनार 3. सुन्दरम पुत्र नलाकानु कोनार 4. नारायना कोनार पुत्र मुथु कोनार 5. पतामुथु पुत्र सुबईया कोनार 6. पेरुमल कोनार पुत्र सामी कोनार 7. रमन 8. सुबईया 9. थंकराई महाराजन 10. नटराजन 11. चेलामल

582 GI/07-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1426/1ए	निजी	नम	600	1. वेलु अमाल पत्नी वेरामुथु कोनार 2. वेंकटाचलम 3. पदमावती 4. मुथुसामी 5. वदाईमल
				1426/2ए	निजी	नम	80	सुब्रामनियन पुत्र अरमुगावल
				1437/1ए	निजी	शुष्क	600	मसाना कोनार पुत्र ईरुलप्पा कोनार
				1437/3ए	निजी	शुष्क	550	मसाना कोनार पुत्र ईरुलप्पा कोनार
				1437/4ए	निजी	शुष्क	500	मसाना कोनार पुत्र ईरुलप्पा कोनार
				1437/5ए	निजी	शुष्क	500	मसाना कोनार पुत्र ईरुलप्पा कोनार
				1437/6ए	निजी	शुष्क	600	मसाना कोनार पुत्र ईरुलप्पा कोनार
				1438/2	निजी	शुष्क	3700	सुबुलक्ष्मी पत्नी पतामुथु
				1442/2	राज्य	पोरमबोके	300	तमिल नाडु सरकार
				1452/2बी	निजी	शुष्क	4100	1. पेरुमल कोनार पुत्र मयांदी 2. रामासुबु कोनार पुत्र मयांदी कोनार
				1452/3ए1	निजी	शुष्क	1150	अर्चना कोनार पुत्र मुकिया कोनार
				1452/3बी1	निजी	शुष्क	1000	अर्चना कोनार पुत्र मुकिया कोनार
				1465/1	निजी	शुष्क	550	1. अलागुमुथु कोनार पुत्र सुदालामुथु कोनार 2. सेल्वम पुत्र सुदालामुथु कोनार
				1465/2ए	निजी	शुष्क	1050	कृष्णन पुत्र सामी कोनार
				1465/2बी	निजी	शुष्क	1050	1. ईसकीमुथु कोनार @ कानी कोनार पुत्र नाम्बी कोनार 2. अरुमुगा कोनार पुत्र नाम्बी
				1465/2सी	निजी	शुष्क	2850	1. ईसकीमुथु कोनार कानी कोनार पुत्र नाम्बी कोनार 2. कनमदाई कोनार पुत्र ईसकीमुथु कोनार 3. ईसाकीयमल पत्नी कृष्णा कोनार
				1466/2	निजी	शुष्क	3600	कृष्णन पुत्र सामी कोनार
				1477/2बी	निजी	शुष्क	2250	कृष्णन पुत्र सामी कोनार
				1478/1ए	निजी	शुष्क	750	मयांदी कोनार पुत्र अलागुमुथु कोनार
				1478/1बी	निजी	शुष्क	2000	ईरुलप्पा कोनार पुत्र सुदालाईमुथु कोनार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1478/1सी	निजी	शुष्क	1400	अलागुमुथु कोनार पुत्र सुदालाईमुथु कोनार
				1487/1ए	निजी	शुष्क	2450	1. अन्दी कोनार पुत्र ईसाकीमुथु कोनार 2. नाम्बी कोनार पुत्र वीराबागु कोनार
				1487/1बी	निजी	शुष्क	700	अचुनन पुत्र सेल्वम
				1487/2	निजी	शुष्क	3150	मयांदी कोनार पुत्र अलागुमुथु कोनार
				1487/3ए	निजी	शुष्क	850	अचुनन पुत्र सेल्वम
				1488/2	निजी	शुष्क	1100	कृष्णन पुत्र सामी कोनार
				1492/2	राज्य	पोरम्बोके	1800	तमिल नाडु सरकार

[फा. सं. भाराप्र/तक/एलए/एमके/वी.वल्लीयूर 3(डी) 1/2007]

प्रभाकर, उप-सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2007

**S.O. 264(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, (Department of Road Transport and Highways), number **S.O.1237 (E)**, dated the **2<sup>nd</sup> September, 2005**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2<sup>nd</sup> September, 2005 and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highway No.7, including the bypass, on the stretch of land from Km.120.000 to 224.000 (Madurai - Kanniyakumari Section) in Tirunelveli District, in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "DAILY MALAR" and "The Hindu", both dated the 27<sup>th</sup> October, 2005; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas in pursuance of W.P.No.4461 in W.P.M.P.No.4722/2006 and W.P.No.4462 filed by Esakkimuthu and 3 others in the Hon'ble Madurai Bench of Madras High Court, the Hon'ble Bench by its order dated the 17<sup>th</sup> June, 2006 passed an interim stay of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1237(E), dated the 2<sup>nd</sup> September, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6<sup>th</sup> September, 2005, in respect of Survey Nos. 1706/2A, 1304/4A, 1708/2A1 and 1708/20 which are the properties belonging to the petitioner;

And whereas the Hon'ble Madurai Bench of Madras High Court by its order, dated the 30<sup>th</sup> November, 2006 has vacated the interim stay in the above mentioned writ petitions and disposed the same as dismissed;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 120.000 to Km. 224.000 (Madurai – Kanniyakumari Section) on the National Highway No.7 in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the land owner/Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tirunelveli	Radhapuram	Vadakku Valliyoor	278/1B	Private	Dry	500	Ramachandran, S/o. Mayandi Konar
				278/2A	Private	Dry	750	Ramachandran, S/o. Mayandi Konar
				278/4	State Government	Poramboke	300	Tamil Nadu Government
				279/3	Private	Dry	50	1. Narayana Perumal Nadar, S/o. Sadaiyan Nadar, 2. Natarajan, 3. Zahir Hussain, 4. Jesintha Meri, 5. Paramasivan
				279/2C2A	Private	Dry	700	Paramasivan, S/o. Ramaiah Konar
				1706/1B	Private	Dry	950	1. M.C.D.A. Rajan, 2. Arunachalam, 3. Bala Rajeswari, 4. Subramania Thevar, 5. Paul Raj, 6. Subramania Thevar
				1706/2A	Private	Dry	8700	Esakkimuthu, S/o. Manam Mari Konar
				1707/7	Private	Dry	132	Vasantha Mary, W/o. Anna Rajan
				1707/8	Private	Dry	400	1. Chidambara Thevar, S/o. Subramania Thevar, 2. Lakshmana Thevar, S/o. Thirunavukarsu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Thevar, 3. Siva Subramaniam, S/o. Chithrai Thevar, 4. Chelladurai @ Mahaganapathi, S/o. Chithirai Thevar, 5. Kanthasamy, S/o. Chithirai Thevar, 6. Dhanushkodi Ramalinga Thevar, S/o. Ramasamy Thevar, 7. Alagammal, 8. Muthammal, 9. Saroja
				1707/9	Private	Dry	700	1. Chidambara Thevar, S/o. Subramania Thevar, 2. Lakshmana Thevar, S/o. Thirunavuukarsu Thevar, 3. Siva Subramaniam, S/o. Chithrai Thevar, 4. Chelladurai @ Mahaganapathi, S/o. Chithirai Thevar, 5. Kanthasamy, S/o. Chithirai Thevar, 6. Dhanushkodi Ramalinga Thevar, S/o. Ramasamy Thevar, 7. Alagammal, 8. Muthammal, 9. Saroja
				1707/1C2B	Private	Dry	127	Mahadevan, S/o. Mayandi
				1707/1D1A	Private	Dry	6700	Lakshmana Thevar, S/o. Thirunavukarasu Thevar
				1707/1D2A	Private	Dry	168	Loorthu Xavier, S/o. Thomas
				1707/10	State Government	Poramboke	600	Tamil Nadu Government
				1707/3C2	Private	Dry	290	1. Chidambara Thevar, S/o. Subramania Thevar, 2. Lakshmana Thevar, S/o. Thirunavuukarsu Thevar, 3. Siva Subramaniam, S/o. Chithrai Thevar, 4. Chelladurai @ Mahaganapathi, S/o. Chithirai Thevar, 5. Kanthasamy, S/o. Chithirai Thevar, 6. Dhanushkodi Ramalinga Thevar, S/o. Ramasamy Thevar, 7. Alagammal, 8. Muthammal, 9. Saroja
				1707/3D1	Private	Dry	2000	Lakshmana Thevar, S/o. Thirunavukarasu Thevar
				1708/1A2	Private	Dry	290	1. M.C.D.A. Rajan, 2. Arunachalam, 3. Bala Rajeswari, 4. Subramania Thevar, 5. Paul Raj, 6. Subramania Thevar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1708/18	Private	Manai	4117	1. M.C.D.A. Rajan, 2. Arunachalam, 3. Bala Rajeswari, 4. Subramania Thevar, 5. Rasaiah, S/o. Koluvaai nadar, 6. M. Valli, W/o. Madasamy, 7. Paul Raj, 8. Rukkumani, 9. Aani Uthira, 10. Sivalingam, 11. Chellapandi, 12. Ravi, 13. Tamil Nadu Government
				1708/19	Private	Manai	165	1. Micheal Rayappan, S/o. Arullapa Nadar, 2. Boomithana Iyakkam
				1708/2A1	Private	Manai	545	1. Nambi Arasan, S/o. Esakkimuthu 2. Manamaran, S/o Esakkimuthu 3. Subbiah Barathi S/o Esakkimuthu 4. David 5. Elizebath 6. Martin Ponvalar Selvan 7. Shanmugam S/o Narayana Konar 8. Pappu Ammal D/o Pitchumani Konar
				1708/20	Private	Manai	7272	1. Nambi Arasan, S/o. Esakkimuthu 2. Manamaran, S/o Esakkimuthu 3. Subbiah Barathi S/o Esakkimuthu 4. David 5. Elizebath 6. Martin Ponvalar Selvan 7. Shanmugam S/o Narayana Konar 8. Pappu Ammal D/o Pitchumani Konar 9. Esakkimuthu 10. Rajeswari 11. Lakshmanan 12. Thillai Raj 13. Andrews Kanagaraj 14. Uma Parvathi
				1708/3	Private	Manai	350	Naranthera Babu, S/o. Sankara Narayanan
				1708/8	Private	Manai	100	Ramasamy, S/o. Kala Perumal Nadar
				1708/11	Private	Dry	250	Jeyasevian, S/o. Ponnaiah Nadar
				1708/12	Private	Dry	250	Sangunthala Kalaivaani, W/o. Immanuel

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1708/14A	Private	Dry	325	Thomas, S/o. Vetha Manickam
				1708/15A	Private	Dry	114	Thillairaj, S/o. Nambiraj
				1709/3	State Government	Poramboke	4300	Tamil Nadu Government
				1709/5	State Government	Poramboke	350	Tamil Nadu Government
				1725/51	Private	Dry	180	1. Wellington, S/o. Thomas, 2. Joseph Joy, W/o. Rathinaraj, 3. Kuttalingam @ Raja, 4. Kadar Mohideen, S/o. Sheik Uduman, 5. Rajalakshmi, W/o. Arumugasamy, 6. Joseph Joy, W/o. Grahori, 7. Abdul Farook, S/o. Mohamed Kani, 8. Saravanan, S/o. Rajasekaran Nadar, 9. Devadoss, S/o. Paranjothi, 10. Chellammal, W/o. Arumugam, 11. Santha Chelladurai, 12. Muthulakshmi, 13. Ruby Kamala, W/o. Rajagopaladoss, 14. Ravikumar, S/o. Gnanaiah Nadar, 15. Guga Balan, 16. Aruna, 17. Shanmugasundaram, 18. Wilson, 19. Murugan, 20. Esakkiappan
				1725/52	Private	Dry	260	1. Wellington, S/o. Thomas, 2. Joseph Joy, W/o. Rathinaraj, 3. Kuttalingam @ Raja, 4. Kadar Mohideen, S/o. Sheik Uduman, 5. Rajalakshmi, W/o. Arumugasamy, 6. Joseph Joy, W/o. Grahori, 7. Abdul Farook, S/o. Mohamed Kani, 8. Saravanan, S/o. Rajasekaran Nadar, 9. Devadoss, S/o. Paranjothi, 10. Chellammal, W/o. Arumugam, 11. Santha Chelladurai, 12. Muthulakshmi,

								13. Ruby Kamala, W/o. Rajagopaladoss, 14. Ravikumar, S/o. Gnanaiah Nadar, 15. Guga Balan, 16. Aruna, 17. Shanmugasundaram, 18. Wilson, 19. Murugan, 20. Esakkiappan
			1725/53	Private	Dry	65		1. Wellington, S/o. Thomas, 2. Joseph Joy, W/o. Rathinaraj, 3. Kuttalingam @ Raja, 4. Kadar Mohideen, S/o. Sheik Uduman, 5. Rajalakshmi, W/o. Arumugasamy, 6. Joseph Joy, W/o. Grahori, 7. Abdul Farook, S/o. Mohamed Kani, 8. Saravanan, S/o. Rajasekaran Nadar, 9. Devadoss, S/o. Paranjothi, 10. Chellammal, W/o. Arumugam, 11. Santha Chelladurai, 12. Muthulakshmi, 13. Ruby Kamala, W/o. Rajagopaladoss, 14. Ravikumar, S/o. Gnanaiah Nadar, 15. Guga Balan, 16. Aruna, 17. Shanmugasundaram, 18. Wilson, 19. Murugan, 20. Esakkiappan
			1725/2A1	Private	Dry	16950		Maria Micheal Ammal, W/o. Yesuvadiyan
			1725/47	Private	Dry	162		1. Sagunthala Ammal, 2. Kasthuri Jeyarubi, W/o. Viajakumar Gunaseelan, 3. Panneer Selvam, S/o. Chellaiah, 4. Joice Bai, S/o. Prem Kumar, 5. Micheal S/o. Manoharan, 6. Maragatha Raj, S/o. Nalla Nambi, 7. Gunaseelan Jeyakumar, S/o. Jeyamani, 8. Thiravia Raj, S/o. Samuvel Nadar, 9. Hepzhi Bai Rajam, W/o. Vethakan, 10. Santhi, S/o. Esakkiappan, 11. Jesudoss, S/o. Sundaram,



							12. Sivaji, S/o. Perumal, 13. Muthu, S/o. Saminathan, 14. Jerovan, S/o. Joseph Paul, 15. Grace Rosari, W/o. Arokiya Dhanaraj, 16. Dayaseesan, S/o. Packiyathan, 17. Anitha, W/o. John Ravi, 18. Vincent, S/o. Soosai Manikam, 19. Latha, W/o. Vincent, 20. Sheepa, D/o. Devaraj, 21. Jebaraj, S/o. Ponnambalam Nadar, 22. Iyyappan, S/o. Muthusami, 23. A. Panneerselvam, 24. Solomon Jeba, 25. Duraipandiyan, 26. Kamaraj, 27. Durai Arasan, 28. Mallika Rajendran, 29. Mani, 30. Abel, 31. Selvi, 32. Poomalai, 33. Iyyappan, 34. R. Rajesh, 35. Darwin, 36. Thangadurai, 37. Abraham Rajkumar, 38. S. Jebakumar, 39. Radhakrishnan, 40. Jeyapaul, 41. Tamil Nadu Government, 42. Muthukumar, S/o. Sundaram Asari, 43. Muthulakshmi, W/o. Muthukumar, 44. Rajan, S/o. Subramania Nadar, 45. Jestin Siluvai, S/o. Nehisis, 46. Pepeyal, W/o. Adaikalam
--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1725/48	Private	Dry	60	1. Sagunthala Ammal, 2. Kasthuri Jeyarubi, W/o. Viajakumar Gunaseelan, 3. Panneer Selvam, S/o. Chellaiah, 4. Joice Bai, S/o. Prem Kumar, 5. Micheal S/o. Manoharan, 6. Maragatha Raj, S/o. Nalla Nambi, 7. Gunaseelan Jeyakumar, S/o. Jeyamani, 8. Thiravia Raj, S/o. Samuvel Nadar, 9. Hepzhi Bai Rajam, W/o. Vethakan, 10. Santhi, S/o. Esakkiappan, 11. Jesudoss, S/o. Sundaram, 12. Sivaji, S/o. Perumal, 13. Muthu, S/o. Saminathan, 14. Jerovan, S/o. Joseph Paul, 15. Grace Rosari, W/o. Arokiya Dhanaraj, 16. Dayaseesan, S/o. Packiyathan, 17. Anitha, W/o. John Ravi, 18. Vincent, S/o. Soosai Manikam, 19. Latha, W/o. Vincent, 20. Sheepa, D/o. Devaraj, 21. Jebaraj, S/o. Ponnambalam Nadar, 22. Iyyappan, S/o. Muthusami, 23. A. Panneerselvam, 24. Solomon Jeba, 25. Duraipandiyan, 26. Kamaraj, 27. Durai Arasan, 28. Mallika Rajendran, 29. Mani, 30. Abel, 31. Selvi, 32. Poomalai, 33. Iyyappan, 34. R. Rajesh, 35. Darwin, 36. Thangadurai, 37. Abraham Rajkumar, 38. S. Jebakumar,

								39. Radhakrishnan, 40. Jeyapaul, 41. Tamil Nadu Government, 42. Muthukumar, S/o. Sundaram Asari, 43. Muthulakshmi, W/o. Muthukumar, 44. Rajan, S/o. Subramania Nadar; 45. Jestin Siluvai, S/o. Nehisis, 46. Pepeyal, W/o. Adaikalam
				1725/49	Private	Dry	25	1. Sagunthala Ammal, 2. Kasthuri Jeyarubi, W/o. Viajakumar Gunaseelan, 3. Panneer Selvam, S/o. Chellaiah, 4. Joice Bai, S/o. Prem Kumar, 5. Micheal S/o. Manoharan, 6. Maragatha Raj, S/o. Nalla Nambi, 7. Gunaseelan Jeyakumar, S/o. Jeyamani, 8. Thiravia Raj, S/o. Samuvel Nadar, 9. Hepzhi Bai Rajam, W/o. Vethakan, 10. Santhi, S/o. Esakkiappan, 11. Jesudoss, S/o. Sundaram, 12. Sivaji, S/o. Perumal, 13. Muthu, S/o. Saminathan, 14. Jerovan, S/o. Joseph Paul, 15. Grace Rosari, W/o. Arokiya Dhanaraj, 16. Dayaseesan, S/o. Packiyathan, 17. Anitha, W/o. John Ravi, 18. Vincent, S/o. Soosai Manikam, 19. Latha, W/o. Vincent, 20. Sheepa, D/o. Devaraj, 21. Jebaraj, S/o. Ponnambalam Nadar, 22. Iyyappan, S/o. Muthusami, 23. A. Panneerselvam, 24. Solomon Jeba, 25. Duraipandiyan, 26. Kamaraj, 27. Durai Arasan,

							28. Mallika Rajendran, 29. Mani, 30. Abel, 31. Selvi, 32. Poomalai, 33. Iyyappan, 34. R. Rajesh, 35. Darwin, 36. Thangadurai, 37. Abraham Rajkumar, 38. S. Jebakumar, 39. Radhakrishnan, 40. Jeyapaul, 41. Tamil Nadu Government, 42. Muthukumar, S/o. Sundaram Asari, 43. Muthulakshmi, W/o. Muthukumar, 44. Rajan, S/o. Subramania Nadar, 45. Jestin Siluvai, S/o. Nehisis, 46. Pepeyal, W/o. Adaikalam
			1725/50	Private	Dry	105	1. Sagunthala Ammal, 2. Kasthuri Jeyarubi, W/o. Viajakumar Gunaseelan, 3. Panneer Selvam, S/o. Chellaiah, 4. Joice Bai, S/o. Prem Kumar, 5. Micheal, S/o. Manoharan, 6. Maragatha Raj, S/o. Nalla Nambi, 7. Gunaseelan Jeyakumar, S/o. Jeyamani, 8. Thiravia Raj, S/o. Samuel Nadar, 9. Hepzhi Bai Rajam, W/o. Vethakan, 10. Santhi, S/o. Esakkiappan, 11. Jesudoss, S/o. Sundaram, 12. Sivaji, S/o. Perumal, 13. Muthu, S/o. Saminathan, 14. Jerovan, S/o. Joseph Paul, 15. Grace Rosari, W/o. Arokiya Dhanaraj, 16. Dayaseesan, S/o. Packiyathan, 17. Anitha, W/o. John Ravi, 18. Vincent, S/o. Soosai Manikam, 19. Latha, W/o. Vincent,

								20. Sheepa, D/o. Devaraj, 21. Jebaraj, S/o. Ponnambalam Nadar, 22. Iyyappan, S/o. Muthusami, 23. A. Panneerselvam, 24. Solomon Jeba, 25. Duraipandiyan, 26. Kamaraj, 27. Durai Arasan, 28. Mallika Rajendran, 29. Mani, 30. Abel, 31. Selvi, 32. Poomalai, 33. Iyyappan, 34. R. Rajesh, 35. Darwin, 36. Thangadurai, 37. Abraham Rajkumar, 38. S. Jebakumar, 39. Radhakrishnan, 40. Jeyapaul, 41. Tamil Nadu Government, 42. Muthukumar, S/o. Sundaram Asari, 43. Muthulakshmi, W/o. Muthukumar, 44. Rajan, S/o. Subramania Nadar, 45. Jestin Siluvai, S/o. Nehisis, 46. Pepeyal, W/o. Adaikalam
				1725/2B2A	Private	Dry	85	1. Vasuki, D/o. Ramasamy Konar, 2. Mariya Gnanaiah, S/o. Dhanuskodi Nadar, 3. R. Amutha
				1725/15A	Private	Dry	500	Balasubramanian, S/o. Muthiah Thevar
				1725/29B	Private	Dry	90	Rajammal, W/o. Sundarraj
				1725/32A	Private	Dry	35	Esakkiappan @ Mani, S/o. Bagavathi Asari

582 GI/07-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1725/33A	Private	Dry	90	1. Manohar, S/o. Thangaiah Nadar, 2. Gnana Selvam, W/o. Manohar
				1725/40A	Private	Dry	15	Santhi, W/o. Esakkiappan
				1725/44A	Private	Dry	55	Anitha, W/o. John Ravi
				1725/45B	Private	Dry	95	Mettilda, W/o. Chelladurai
				1730/1A2	Private	Dry	18050	1. Nirmala Kasthuribai, 2. Kanthaiah Thevar, S/o. Sudalaimuthu Thevar, 3. Natarajan, 4. Chelladuraipandian
				1730/1B1	Private	Dry	850	Natarajan, S/o. Kanthaiah Thevar
				1736/1A	Private	Dry	4250	Jesu Rethnabai
				1737/1B	Private	Dry	7600	Maria Micheal Ammal
				1737/2B	Private	Dry	3400	Jesuvadiyan
				1740/3A2	Private	Dry	100	1. Ramsingh, S/o. Thangaiah Nadar, 2. Manickadhas, S/o. Arockiasamy, 3. Amalraj, S/o. Savarimuthu Nadar, 4. Krishnaveni, W/o. Suresh Kumar
				1741/1B	Private	Dry	100	1. Gleybai, W/o. Ramsingh, 2. Vinoth, 3. Vimal, 4. Vijay Gurdian Gleybai
				1741/2B	Private	Dry	6000	1. Ramasubbu Kone, 2. Chellappa
				1741/3A2	Private	Dry	200	Sundararajan, S/o. Muthusamy Reddiyar
				1741/3B	Private	Dry	200	Venkata Subbarayalu, S/o. Ramasamy Reddiyar
				1741/3C	Private	Dry	200	Venkata Krishnan, S/o. Varatharajan
				1741/3D	Private	Dry	400	1. Anuradha, W/o. Bagavathi, 2. Janaki, W/o. Balan
				1741/3E2	Private	Dry	2400	1. Ramsingh, S/o. Thangaiah Nadar, 2. Manickadhas, S/o. Arockiasamy, 3. Amalraj, S/o. Savarimuthu Nadar, 4. Krishnaveni, W/o. Suresh Kumar, 5. Thiraviam 6. Indira, 7. Rajan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1741/3F1	Private	Dry	600	Sundararajan, S/o. Muthusamy Reddiyar
				1741/3G	Private	Dry	600	Sukumaran, S/o. Thiruvengadam
				1741/4A	Private	Dry	350	Santhi @ Santhakumari, W/o. Sukumaran
				1742/1A	Private	Dry	250	1. Jeyaraman, 2. Jeyaraj, 3. Baby Daniel, 4. Anbaiah, 5. Thenkarai Maharajan, 6. Ramsingh, 7. Selvabai, 8. Muthiah
				1742/2A	Private	Dry	1600	1. Ramasubbu Kone, 2. Cheliappa
				1743/2	Private	Dry	18100	Sabapathi, S/o. Arumugam Chettiyar
				1744/3B	Private	Dry	100	Selvaraj, S/o. Ramasundaram Nadar
				1744/4B	Private	Dry	100	1. V. Karuthakkan Nadar, 2. R. Harigopalan, 3. R. Selvaraj
				1758/2	State Government	Poramboke	2650	Tamil Nadu Government
				1774/2B	Private	Dry	1850	Mohideen, S/o. Musthafa
				1774/6A1	Private	Dry	100	1. Annaporsia, W/o. Anantha Raja, 2. Tamil Nadu Mercantile Bank Ltd.
				1774/6B1	Private	Dry	1400	1. Annaporsia, W/o. Anantha Raja, 2. Tamil Nadu Mercantile Bank Ltd.
				1774/7A	Private	Dry	2900	1. Mohideen, S/o. Musthafa, 2. Anantha Raja, S/o. Santhanamariyan Nadar, 3. Tamil Nadu Mercantile Bank Ltd.
				1777/1A2	Private	Dry	7400	Doris Victor, W/o. A.D.J. Victor
				1777/2A	Private	Dry	6200	1. Magamutha, W/o. Mohamed Kani, 2. Asan Meeran, S/o. Mohamed Kani, 3. Mohamed Birthavus, S/o. Mohamed Kani
				1778/2B	Private	Dry	12100	Doris Victor, W/o. A.D.J. Victor
				1780/1B14B	Private	Dry	50	Jeyanthi, D/o. Kumarasamy
				1780/1B15B	Private	Dry	150	Naresh Babu, S/o. Perumal Pillai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1780/1B16B	Private	Dry	245	Chidambara Kumar @ M.C. Kumar, S/o. Mariappa Pillai
				1780/1B17	Private	Dry	300	Balammal, W/o. Kanaga Sabapathi Pillai
				1780/4	Private	Dry	10700	1. Magamutha, W/o. Mohamed Kani, 2. Asan Meeran, S/o. Mohamed Kani, 3. Mohamed Birthavus, S/o. Mohamed Kani
				1780/1B21	Private	Dry	300	Thangarani Hepzibai, W/o. Sundarrajan
				1780/2B	Private	Dry	1600	Arulmigu Narayanasamy Koil Executive Officer & Thakkar
				1780/3B	Private	Dry	35	Theertharappan, S/o. Ramasamy Mudaliyar
				1781/1B	Private	Dry	1100	1. Madesh Kumar, S/o. Thangappan, 2. Amutha, W/o. Anbalagan
				1786/2	Private	Dry	15850	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer
				1788/2	Private	Dry	18100	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer
				1789/1A	Private	Dry	1350	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer
				1790/1B	Private	Dry	14000	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer
				1790/4	State Government	Poramboke	250	Tamil Nadu Government
				1790/3B	Private	Dry	10000	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer
				1791/2	State Government	Poramboke	1400	Tamil Nadu Government
				1792/2	State Government	Poramboke	12250	Tamil Nadu Government



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1794/1	Private	Dry	156	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1794/2A	Private	Dry	125	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1794/3	Private	Dry	284	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1794/4A	Private	Dry	950	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1794/5A	Private	Dry	481	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1794/6A	Private	Dry	79	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1794/7A	Private	Dry	45	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1794/20A	Private	Dry	200	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1794/21	Private	Dry	250	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1794/22A	Private	Dry	140	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1794/36A	Private	Dry	86	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1794/41A	Private	Dry	600	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1797/1	Private	Dry	4500	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer
				1798/2A	Private	Dry	1900	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer

582 GI/07-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1800/2	Private	Wet	3100	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer
				1802/2	Private	Wet	650	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer
				1803/2	Private	Wet	550	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer
				1805/2	Private	Wet	650	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer
				1806/2	Private	Dry	350	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer
				1831/38	Private	Dry	3300	Vadakku Vallioor Subramania Swami Koil Uchanthi Kattalai Staff Medai Thalavai Kattalai Executive Officer
				2317/24	Private	Manai	18	D. Vaithianathan
				2317/25	Private	Manai	74	R. Sankara Vadivoo
				2317/13	Private	Manai	129	R. Sankara Vadivoo
				2317/27	State Government	Poramboke	170	Tamil Nadu Government
				2317/26	Private	Manai	52	P. Arumugam
				2317/21	Private	Manai	75	Pushpam
				2317/28	State Government	Poramboke	85	Tamil Nadu Government
				2318/16	Private	Manai	60	Saroja, W/o. Nallathambi
				2318/5	Private	Manai	70	Vasanth, W/o. Natarajan
				2318/6	Private	Manai	100	Muthamhal
				2318/17	Private	Manai	60	Dinamani, W/o. Ponnaiah
				2318/21	State Government	Poramboke	89	Tamil Nadu Government
				2318/11	Private	Manai	122	E. Selvamani
				2318/18	Private	Manai	117	E. Lakshmi
				2318/19	Private	Manai	62	P. Mookkiah
				2318/20	Private	Manai	20	Poongothai
				2318/15	Private	Manai	118	A. Kamalam

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2319/18	State Government	Poramboke	70	Tamil Nadu Government
				2319/17	Private	Manai	15	Perinbam
				2321/24	State Government	Poramboke	92	Tamil Nadu Government
				2321/4	Private	Manai	175	M. Thangammal
				2321/5	State Government	Poramboke	50	Tamil Nadu Government
				2321/6	Private	Manai	103	Rajammal, W/o. Rajaiah
				2321/7	Private	Manai	94	E. Chellappa
				2321/25	State Government	Poramboke	355	Tamil Nadu Government
				2321/22	Private	Manai	55	E. Selvamani
				2321/23	Private	Manai	103	M. Nallathambi
				1272/1A	Private	Wet	800	Lakshmi, W/o. Kanthan
				1272/1B	Private	Wet	850	1. Esakkiammal, W/o. Murugan, 2. Murugan, S/o. Malaiyandi Konar
				1272/1C	Private	Wet	850	Lakshmi, W/o. Kanthan
				1272/2A	Private	Wet	750	Lakshmi, W/o. Kanthan
				1273/2	Private	Wet	500	Esakkiammal, W/o. Ganapathi Konar
				1274/2	Private	Wet	800	Jeyalakshmi, W/o. Nambi Rajan
				1281/2B	Private	Wet	450	1. Thangapandi, S/o. Madamuthu 2. Natarajan, S/o. Madamuthu, 3. S.M. Shunmuga Vadivoo, D/o. Madamuthu
				1281/3	Private	Wet	750	Selvaraj, S/o. Perumal
				1281/4	Private	Wet	750	1. Selvaraj, S/o. Perumal, 2. Mathai Ammal, W/o. Selvaraj
				1282/1A1	Private	Wet	200	1. Pappu, D/o. Shunmugam, 2. Panchavarnam, D/o. Shunmugam, 3. Selvarethinam, S/o. Shunmugam, 4. Kappichetti S/o. Shunmugam, 5. Narayanan
				1282/1B1	Private	Wet	200	Velayutham, S/o. Samy
				1282/1C1	Private	Wet	200	1. Esakkimuthu, S/o. Samy, 2. M. Micheal
				1282/1D1	Private	Wet	250	1. Chidambaram, S/o. Samy, 2. Haridhas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1283/1	Private	Wet	700	Chellaiah, S/o. Shunmugam
				1284/1A	Private	Wet	1650	1. Perumal, S/o. Karuppaiah, 2. Ramasamy, S/o. Karuppaiah, 3. Iyyakkutti, S/o. Nainar, 4. Micheal, S/o. Andrews, 5. Chandramathi, D/o. Kanthan, 6. Packiam, D/o. Kanthan
				1287/1A	Private	Wet	500	Pooludaiyan, S/o. Madasamy
				1287/1B	Private	Wet	500	Chidambaram, S/o. Nainar
				1287/2A1	Private	Wet	100	Rasaiah, S/o. Periasamy Nadar
				1287/2B1	Private	Wet	50	Krishna Konar, S/o. Varnia Konar
				1288/1A	Private	Wet	450	Manickam Pillai, S/o. Maharaja Pillai
				1288/2	Private	Wet	50	1. Manickam Pillai, S/o. Maharaja Pillai, 2. Nambi, S/o. Perumal, 3. Perumal, S/o. Subbiah, 4. Esakkimuthu, S/o. Samy, 5. Nambi Narayanan, S/o. Perumal Konar
				1288/3A	Private	Wet	400	Nambi Narayanan, S/o. Perumal Konar
				1289/1A	Private	Wet	400	1. Manickam Pillai, S/o. Maharaja Pillai, 2. Rethnaraj
				1289/2A	Private	Wet	300	Manickam Pillai, S/o. Maharaja Pillai
				1291/1A	Private	Wet	200	Pooludaiyan, S/o. Madasamy
				1291/2A	Private	Wet	100	1. Chidambaram, S/o. Nainar, 2. Grahori Rathnaraj
				1304/1A1	Private	Wet	60	Mani, S/o. Perumal

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1304/1F1	Private	Wet	10	1. Mani, S/o. Perumal, 2. Negomiah, S/o. Perumal, 3. Muthuraj, S/o. Devaram, 4. Pappa, W/o. Muthuraj, 5. Indran, S/o. Nanthan, 6. Sakthi, W/o. Indran, 7. Annadurai, S/o. Chinna Karuppaiah
				1304/2A1	Private	Wet	65	Micheal George, S/o. Yacob
				1304/2D1	Private	Wet	5	1. Micheal George, S/o. Yacob, 2. Paulpandi, S/o. Yacob, 3. Antony Cruz Fernando, S/o. Antony Irudhayam Fernando
				1304/3A1	Private	Wet	5	1. Jesu Micheal, S/o. Antonymuthu, 2. Arul Veerasimman, S/o. Antonymuthu, 3. Moses, S/o. Antonymuthu, 4. Anna Jeya, W/o. Moses
				1304/3B1	Private	Wet	70	Jesu Micheal, S/o. Antonymuthu
				1304/4A	Private	Wet	355	Essakkimuthu, S/o. Manamari Konar
				1305/1A	Private	Wet	1650	1. Subbaiah Konar, S/o. Sudalaimuthu Konar, 2. Grahori Rethnaraj
				1312/1A	Private	Dry	600	Vallioor Panchayat Union
				1312/2A	Private	Dry	50	Vallioor Panchayat Union
				1313/1B	Private	Wet	4800	Thangalakshmi, W/o. Thangadurai
				1313/2A1	Private	Wet	400	1. Soosai Rethnam, S/o. Gnana Duraisamy Nadar, 2. Selvaraj, S/o. Gnana Duraisamy Nadar, 3. Alexander, S/o. Gnana Duraisamy Nadar
				1313/2B1	Private	Wet	450	Nambi Konar, S/o. Masana Konar
				1314/4	State Government	Poramboke	30	Tamil Nadu Government
				1314/2A1	Private	Wet	50	Muthukumar, S/o. Krishnan

582 GI/07-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1331/5	State Government	Poramboke	50	Tamil Nadu Government
				1331/2A	Private	Dry	150	1. Elangamani Nadar, S/o. Atthimuthu Nadar, 2. Anantha Mohan, S/o. Elangamani Nadar, 3. Athi Kesavan, S/o. Elangamani Nadar, 4. Perumal
				1337/1A	Private	Dry	1750	1. Murugan, S/o. Nambi Konar, 2. Raman
				1337/1B1A	Private	Dry	1350	1. Raman, S/o. Perumal Naicker, 2. Ganapathi, S/o. Perumal Naicker
				1337/1B2A	Private	Dry	6700	Murugan, S/o. Nambi Konar
				1337/2	Private	Dry	800	Murugan, S/o. Nambi Konar
				1337/3	Private	Dry	850	Murugan, S/o. Nambi Konar
				1337/4	Private	Dry	1400	Murugan, S/o. Nambi Konar
				1337/5	Private	Dry	1050	Murugan, S/o. Nambi Konar
				1337/6	Private	Dry	1600	Murugan, S/o. Nambi Konar
				1338/2	State Government	Poramboke	800	Tamil Nadu Government
				1340/1C2	Private	Wet	250	1. Krishna Konar, S/o. Perumal Konar, 2. Raman, S/o. Perumal Naicker, 3. Ganapathi, S/o. Perumal Naicker
				1340/2A	Private	Wet	3250	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1341/3	State Government	Poramboke	350	Tamil Nadu Government
				1341/2B	Private	Dry	5950	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1342/3	State Government	Poramboke	300	Tamil Nadu Government
				1342/2B	Private	Dry	5900	Vallioor Sri Arulmigu Subramania Samy Kovil Arthasamy Kattalai
				1343/4	Private	Wet	2900	Masanam, S/o. Nallakannu Konar
				1343/1A1B	Private	Wet	1250	Sundara Konar, S/o. Uthiramuthu Konar
				1343/1B1	Private	Wet	450	1. Krishna Konar, S/o. Thopsimuthu Konar, 2. Masanam, S/o. Nallakannu Konar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1343/1B2	Private	Wet	350	Sundara Konar, S/o. Uthiramuthu Konar
				1343/1B3A	Private	Wet	100	1. Elangamani Nadar, S/o. Atthimuthu Nadar, 2. Anantha Mohan, S/o. Elangamani Nadar, 3. Athi Kesavan, S/o. Elangamani Nadar
				1343/2A	Private	Wet	1100	1. Sankaran, S/o. Vannia Konar, 2. Paul Nadar
				1346/1B	Private	Wet	500	Perumal Konar, S/o. Sudalaimuthu Kone
				1346/2	Private	Wet	1200	1. Sankarammal, W/o. Krishna Konar, 2. Prasath, S/o. Krishnan
				1347/1A	Private	Wet	1450	N. Indra, W/o. Balakrishnan
				1347/2A	Private	Wet	1800	1. Sankarammal, W/o. Krishna Konar, 2. Prasath, S/o. Krishnan
				1348/1B	Private	Dry	1250	1. Sankarammal, W/o. Krishna Konar, 2. Prasath, S/o. Krishnan
				1348/2	Private	Dry	100	Sudalaimuthu Konar, S/o. Enamuthu Konar
				1348/3	Private	Dry	700	N. Indra, W/o. Balakrishnan
				1349/1B	Private	Dry	2200	1. Soosai Rethnam, S/o. Gnana Duraisamy Nadar, 2. Selvaraj, S/o. Gnana Duraisamy Nadar, 3. Alexander, S/o. Gnana Duraisamy Nadar
				1349/2B	Private	Dry	2300	1. Manna Nadar, S/o. Pandara Nadar, 2. Narayana Nadar, S/o. Pandara Nadar
				1349/3B	Private	Dry	2500	Sudalaimuthu Konar, S/o. Enamuthu Konar
				1349/5	State Government	Poramboke	350	Tamil Nadu Government
				1350/2	Private	Dry	4200	M. Ramachandran, S/o. Malaiyandi Konar
				1357/2A2	Private	Wet	2400	1. Esakkiammal, W/o. Bagavathi Konar, 2. Thangadurai, S/o. Narayana Nadar
				1357/2C2	Private	Wet	2350	1. Esakkiammal, W/o. Bagavathi Konar, 2. Thangadurai, S/o. Narayana Nadar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1358/3B2	Private	Wet	1100	1. Oosikattan, S/o. Periasamy, 2. Balakrishna Konar, S/o. Velu Konar, 3. Ramasubbu Konar, S/o. Velu Konar, 4. Jeyaseeli, W/o. Micheal, 5. Eskalin Fathima
				1358/3C	Private	Wet	3650	1. Jeyaseeli, W/o. Michael, 2. Ramasubbu, S/o. Arumuga Velar, 3. Arunachalam, S/o. Arumuga Velar, 4. Charles, S/o. Arumuga Velar, 5. Britto, S/o. Micheal, 6. Eskalin Fathima, W/o. Maria Augustin
				1359/2A2	Private	Wet	600	Krishna Konar, S/o. Vallivel Konar
				1359/2B	Private	Wet	1500	Krishna Konar, S/o. Vallivel Konar
				1359/4A2	Private	Wet	1450	Krishna Konar, S/o. Vallivel Konar
				1359/4B2	Private	Wet	650	1. Arumuga Velar, S/o. Subbu Velar, 2. Pon Latha
				1359/4C	Private	Wet	900	Subbammal, W/o. Karuppa Konar
				1382/1B	Private	Wet	700	Arumuga Konar, S/o. Eswaramoorthy Konar
				1382/2	Private	Wet	1250	Arumuga Konar, S/o. Eswaramoorthy Konar
				1383/2B	Private	Wet	1400	Eswari Ammal, W/o. Arumugam
				1384/1B	Private	Wet	2000	Chandra Ammal, W/o. Balakrishnan
				1399/2	State Government	Poramboke	850	Tamil Nadu Government
				1422/1B	Private	Wet	1050	Petchi Ammal, M/o. Valliammal
				1422/2B	Private	Wet	1200	Kannamudaiya Konar, S/o. Esakkimuthu Konar
				1422/3B	Private	Wet	850	Ponnusamy, S/o. Narayana Nadar
				1423/1	Private	Wet	1400	Komba Konar, S/o. Subbiah Konar
				1423/2	Private	Wet	600	1. Christy Reddi, W/o. Thomas Bratti Goastha, 2. Ramasubbu Konar, S/o. Esakkimuthu Konar
				1424/1	Private	Wet	1450	Esakkiappan, S/o. Perumal
				1424/2	Private	Wet	1200	Esakkiappan, S/o. Perumal
				1425/1A1	Private	Wet	600	Muthammal, W/o. (Late) Ayirathan



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1425/1B1	Private	Wet	65	1. Archuna Konar, S/o. Mookkiah Konar, 2. Masanam, S/o. Nallakannu Konar, 3. Sundaram, S/o. Nallakannu Konar, 4. Narayana Konar, S/o. Muthu Konar, 5. Pattamuthu, S/o. Subbiah Konar, 6. Perumal Konar, S/o. Samy Konar, 7. Raman, 8. Subbiah, 9. Thenkarai Maharajan, 10. Natarajan, 11. Chellammal
				1425/2A	Private	Wet	500	1. Archuna Konar, S/o. Mookkiah Konar, 2. Masanam, S/o. Nallakannu Konar, 3. Sundaram, S/o. Nallakannu Konar, 4. Narayana Konar, S/o. Muthu Konar, 5. Pattamuthu, S/o. Subbiah Konar, 6. Perumal Konar, S/o. Samy Konar, 7. Raman, 8. Subbiah, 9. Thenkarai Maharajan, 10. Natarajan, 11. Chellammal
				1426/1A	Private	Wet	600	1. Velu Ammal, W/o. Vairamuthu Konar, 2. Venkatachalam, 3. Padmavathi, 4. Muthusamy, 5. Vadivammal
				1426/2A	Private	Wet	80	Subramanian, S/o. Arumugavel
				1437/1A	Private	Dry	600	Masana Konar, S/o. Irulappa Konar
				1437/3A	Private	Dry	550	Masana Konar, S/o. Irulappa Konar
				1437/4A	Private	Dry	500	Masana Konar, S/o. Irulappa Konar
				1437/5A	Private	Dry	500	Masana Konar, S/o. Irulappa Konar
				1437/6A	Private	Dry	600	Masana Konar, S/o. Irulappa Konar
				1438/2	Private	Dry	3700	Subbulakshmi, W/o. Pattamuthu
				1442/2	State Government	Poramboke	300	Tamil Nadu Government
				1452/2B	Private	Dry	4100	1. Perumal Konar, S/o. Mayandi Konar, 2. Ramasubbu Konar, S/o. Mayandi Konar
				1452/3A1	Private	Dry	1150	Archuna Konar, S/o. Mookka Konar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1452/3B1	Private	Dry	1000	Archuna Konar, S/o. Mookka Konar
				1465/1	Private	Dry	550	1. Alagumuthu Konar, S/o. Sudalaimuthu Konar, 2. Selvam, S/o. Sudalaimuthu Konar
				1465/2A	Private	Dry	1050	Krishnan, S/o. Samy Konar
				1465/2B	Private	Dry	1050	1. Esakkimuthu Konar @ Kani Konar, S/o. Nambi Konar, 2. Arumuga Konar, S/o. Nambi Konar
				1465/2C	Private	Dry	2850	1. Esakkimuthu Konar, S/o. Subbiah Konar, 2. Kannamada Konar, S/o. Esakkimuthu Konar, 3. Esakkiammal, W/o. Krishna Konar
				1466/2	Private	Dry	3600	Krishnan, S/o. Samy Konar
				1477/2B	Private	Dry	2250	Krishnan, S/o. Samy Konar
				1478/1A	Private	Dry	750	Mayandi Konar, S/o. Alagumuthu Konar
				1478/1B	Private	Dry	2000	Irulappa Konar, S/o. Sudalaimuthu Konar
				1478/1C	Private	Dry	1400	Alagumuthu Konar, S/o. Sudalaimuthu Konar
				1487/1A	Private	Dry	2450	1. Andi Konar, S/o. Esakkimuthu Konar, 2. Nambi Konar, S/o. Veerabagu Konar
				1487/1B	Private	Dry	700	Archunan, S/o. Selvam
				1487/2	Private	Dry	3150	Mayandi Konar, S/o. Alagumuthu Konar
				1487/3A	Private	Dry	850	Archunan, S/o. Selvam
				1488/2	Private	Dry	1100	Krishnan, S/o. Samy Konar
				1492/2	State Government	Poramboke	1800	Tamil Nadu Government

[F. No. NHAI/Tech/LA/MK/V. Valliyoor 3(D) 1/2007]

PRABHAKAR, Dy. Secy.